



स मा चार

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा होली पर्व की शुभकामनाएं

भोपाल : 9 मार्च, 2020.

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री एन.पी. प्रजापति, उपाध्यक्ष सुश्री हिना लिखीराम कावरे एवं नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं।

विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रजापति ने अपने शुभकामना संदेश में होली को पौराणिक एवं ऐतिहासिक पर्व बताते हुए कहा कि उत्साह, उल्लास और उमंग के विविध रंगों का यह पर्व हमारे जीवन में खुशियों का रंग भर दे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह त्योहार प्रदेश भर में पारस्परिक सद्भाव और भाई-चारे के साथ मनाया जायेगा।

विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना लिखीराम कावरे ने कहा है कि होली का पर्व जीवन के सभी रंगों को सहेजने और साझा करने का पर्व है। उन्होंने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने अपने संदेश में कहा है कि होली का त्योहार हमें रंग-गुलाल के माध्यम से सामाजिक समरसता का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी आपसी भाई-चारे के इस पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं एवं प्रदेश की गंगा-जमुनी तहजीब कायम रखें।

राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020

राज्यसभा के लिए चौथे दिन भी दाखिल नहीं हुए नामांकन-पत्र

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के तीन स्थानों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत आज नामजदगी के चौथे दिन भी नियत समयावधि तक कोई नामांकन-पत्र दाखिल नहीं हुआ।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की तीन सीटों के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 6 मार्च, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी तथा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2020 नियत है।

वि.स./ज.स./2020

(मुकेश मिश्रा)

अवर सचिव